



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122024-259535
CG-DL-E-19122024-259535

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5083]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2024/अग्रहायण 28, 1946

No. 5083]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2024/AGRAHAYANA 28, 1946

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5491(अ).—मुख्य वैद्युत निरीक्षक की योग्यता, शक्ति एवं प्रकार्य तथा वैद्युत निरीक्षक नियम, 2006 जिसे दिनांक 17.08.2006 को अधिसूचित तथा समय-समय पर संशोधित किया गया (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा श्री राजेश तुलसीराम पाटिल, कार्यकारी निदेशक (इलेक्ट्रिकल), नागपुर मेट्रो, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) को उक्त नियमों में उल्लिखित योग्यताओं और शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन इस अधिसूचना की तारीख से एमएमआरसीएल में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पुणे मेट्रो रेल परियोजना (पीएमआरपी) के लिए मुख्य वैद्युत निरीक्षक नियुक्त करती है।

उपरोक्त अधिकारी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) के अधिकार क्षेत्रों में प्रचालित विद्युत कार्यों, विद्युत संस्थापनाओं और विद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में या एमएमआरसीएल के नियंत्रण में/एमएमआरसीएल से संबंधित कार्यों और विद्युत संस्थापनाओं के संबंध में शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निष्पादन समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्त अधिकारी किसी भी विद्युत कार्य या संस्थापना के संबंध में, जिसका निष्पादन या अनुरक्षण उनकी जिम्मेदारी है, मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/5/2023- आरएंडआर]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2024

S.O. 5491(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (hereinafter called the said Rules) notified on 17.8.2006 and as amended from time to time, the Central Government hereby appoints Shri Rajesh Tulshiram Patil, Executive Director (Electrical), Nagpur Metro, Maharashtra Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) as Chief Electrical Inspector for Pune Metro Rail Project (PMRP) from the date of this Notification till his tenure in MMRCL ends or until further orders, whichever is earlier, subject to fulfillment of the qualifications and conditions mentioned in the said Rules.

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock, in operation, within the areas occupied by MMRCL or in respect of works and electrical installations under the control of MMRCL/ belonging to MMRCL as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023, as amended from time to time.

It shall be ensured that above said officer shall not function as the Chief Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation, for which, execution or maintenance is his responsibility.

The officer appointed as Chief Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/5/2023-R&R]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.